

कार्यालय इच्छाने गुरुव्य वक्त रास्ताका (वायुगुणी) उद्देश्य एवं जैव विविधता
संरक्षण सह मुख्य लक्ष्यप्राप्ति अभियानका, उत्तीसगढ़
अरण्य भवन, मैटिकल कॉम्प्लेक्स, रायपुर

E-mail - pccfw@vsnl.com

Tel 0771-2552228, Fax 0771-2552227

प्रमाण/व प्रा/प्रयाम- 12/13/2013

रायपुर दिनांक 04/10/2013

प्रति,

संघालक,
इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस सेल
भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-111003

विषय :- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले (तत्कालीन सारगुजा जिला) में स्थित सामरी बॉक्साईट माईन्स, कुदाग बॉक्साईट माईन्स एवं टाटीझरिया बॉक्साईट माईन्स की क्षमता बढ़ाये हेतु इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस।

- संदर्भ:-**
- पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 - पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 - पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 9 अगस्त 2007.

—0—

कृपया आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अदलोकन करने का काष्ट करें। जिसके द्वारा बलरामपुर जिले (पुराने सारगुजा जिले) के सामरी बॉक्साईट खुली खदान (1.1TPA) की क्षमता बढ़ाकर (SLTPA) करने, कुदाग बॉक्साईट खदान (0.4 LTPA) की क्षमता बढ़ाकर (0.6 LTPA) करने तथा टाटीझरिया बॉक्साईट खदान (0.5 TPA) की क्षमता बढ़ाकर (4 TPA) करने के परियोजना प्रस्ताव एवं संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 के वन्यप्राणियों हेतु "वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना" तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमति दिये जाने का लेख किया है।

- विषयांकित परियोजना हेतु खदान के लीज के अनुबंध दिसंबर 1996 एवं जून 1998 में हस्ताक्षरित हुये थे। सामरी क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 द्वारा 2146.746 है, में, कुदाग क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय आदेश क्रमांक J-11015/354/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 द्वारा 377.116 है, में, तथा टाटीझरिया में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II/M दिनांक 9 अगस्त 2007 द्वारा 1218.762 है, में बॉक्साईट खनन की स्वीकृति प्राप्त कर संस्था द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है।

Vijay Bhalla/Precious

Rupam Singh
Agent of Mines
Sam Mines Division
Hindalco Industries Ltd

2. यहांनाम प्रत्यक्ष में उपरोक्त विभिन्न बारों के लिये 10,000 रु. का लागत 50,000 TPA
लिया जाना कुदाल के लिये 0.011034 रु. का 50,000 TPA लिया जाना एवं लारीज़ारिया के लिये
50,000 TPA से बढ़ाकर 4,00,000 TPA 1 बोर्ड माना प्रत्यावित है। भारत सरकार पर्यावरण व वन
मंत्रालय के द्वारा उपरोक्त नीति वाले वन्य प्राणी की स्थीरता कामश आदेश क्रमांक
J-11015/353/2007-II/M दिनांक 22 जूलाई 2007, J-11015/354/2007-II/M दिनांक 27 जुलाई
2007 एवं J-11015/337/2007-II/M दिनांक 9 अगस्त 2007 द्वारा कुछ शर्तों के साथ दी गई है।
जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी उल्लेखित है नि. संबंधित क्षेत्र में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के
शेष्यूल 1 के पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंध योजना तैयार की जाकर राज्य के मुख्य
वन्य जीव अभिरक्षक के अभिमत सहित प्रस्तुत किया जाये। जिसके पालन में संरक्षण द्वारा एक वन्य प्राणी
संरक्षण योजना तैयार की गयी है।
3. खनन क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित तीनों ही परियोजनाओं के एक दूसरे से 4 कि.मी. की परिधि में
स्थित होने एवं सभी के बफर क्षेत्र ओवरलैपिंग होने के कारण सभी के लिये संयुक्त रूप से वन्य प्राणी
संरक्षण व प्रबंधन योजना तैयार की जाकर महाप्रबंधक, (खादान), हिन्डालको इन्डस्ट्रीज के पत्र क्रमांक
HIL/SAM/300/2013 दिनांक 2.03.2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका समग्र रूप से परीक्षण किया
गया। प्रस्तावित परियोजनाओं के कोर क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले ओवरलैपिंग बफर क्षेत्र
में वन्य प्राणियों एवं उपलब्ध वनस्पतियों का सर्वे किया जाकर पाये गये स्पेसिज को परियोजना प्रस्ताव
में अनेकरार-4 के में उल्लेखित किया गया है।
4. उल्लेखित सूचि में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेष्यूल 1 के वन्य प्राणी नहीं पाये गये हैं। परंतु
इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक (वन्य प्राणी), सरगुजा से विगत दस वर्षों में वन्य प्राणियों द्वारा की गई
क्षति की जानकारी चाही गयी। वन संरक्षक ने अपने पत्र क्रमांक 749 दिनांक 24.05.2012 से यह
जानकारी उपलब्ध कराया है कि उक्त क्षेत्र में हाथियों का वर्ष 2005 में दो बार, वर्ष 2006 में आठ बार,
2007 में एक बार, 2008 में दो बार, 2009 में सात बार आना जाना हुआ है। इसी प्रकार भालुओं के द्वारा
वर्ष 2007-08 में आठ, वर्ष 2008-09 में पाँच, वर्ष 2009-10 में छः एवं 2010-11 में 4 जनहानि व
जनघायत्र के प्रकरण तथा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में तेंदुआ द्वारा पशु हानि के दो प्रकरण तथा
लकड़बंधे के कारण एक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के
शेष्यूल 1 के उपरोक्त उल्लेखित वन्य प्राणियों के परियोजना क्षेत्र में आने जाने के प्रमाण पाये गये हैं।
प्रस्तावित क्षेत्र से 6 से 7 कि.मी. की दूरी पर झारखंड राज्य में भेड़िया अभ्यारण्य भी स्थापित है। अद्व
संस्था द्वारा दस वर्षों के लिये वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंध योजना श्री पी. के. सेन पूर्व वन्य प्राणी
अभिरक्षक, झारखंड से तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसका समग्र विस्तृत अध्ययन
किया गया। प्रबंधन योजना में प्रस्तावित प्रबंधन संबंधित मुख्य गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है।
5. योजना में वन्य प्राणियों के लिये जलग्रहण क्षेत्र विकास, रहवास-विकास, पैदल व्यवस्था, विभाग के
क्षेत्रीय अमले के सहयोग से क्षेत्र में पेट्रोलिंग व मौनिटरिंग, अग्नि सुरक्षा, ईको विकास की गतिविधियों,
रथानीय ग्रामीणों के लिये आजीविका सृजन, टीकाकरण, जनजागृति कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का

सम्पादित करते हुये 04 वर्षों के लिए गढ़वाल जिला प्रभारीने इस प्रस्तावना की गई है। जिसका क्रियान्वयन वन विभाग के द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव में सामान्य कार्य का विवरण दिनानगरार है –

Sl. No.	Works to be done	Cost for Four years (Rs. In lakhs)					Remarks
		1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	Total	
1	Plantation including soil and moisture Conservation works as per norms of forest department surrounding the lease hold	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	
2	Silvicultural Operation on degraded forest Land and cut back in rooted waste	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
3	Habitat Management Eradication of unwanted species in buffer Zone area, Fire Protection work including wages for fire watchman, Creation of Fire line etc. surrounding lease hold and in buffer area.	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	
4	Monitoring - One Staff of forest department to monitor movement of wild life, encroachment, illicit cutting, poaching, fire etc. including Salary of 1 staff	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	
5	Construction of water holes, their maintenance and patrolling (One per Annum)	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	
6	Eco-development activities like poultry, piggery, bee keeping etc.	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	—
7	Vocational Training to weaker section, females, old persons and minors of the surrounding villages in three centre in the buffer Zone of the mining lease @ 50000/- per centre.	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	
8	Veterinary camp for immunization of Cattle with the help of block veterinary staff.	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
9	Awareness Programme including Signages, distribution of Pamphlets related to wild life conservation etc.	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	
10	Provision for conservation of Biodiversity among flora and fauna of the area & Preparation of Biodiversity register	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	The amount is to be deposited in the account of Biodiversity Board as this work is to be done by Bio-diversity management committees (BMC's)
	Total	55.00	35.00	35.00	35.00	160.00	

वन विभाग को लागत ₹ 160.00 लाख ब्रेंडेड वैल्यु ने रा. यह स्थगत
राशि वन विभाग के उद्देश्य के हिसाब से यूंदि होगी। परियोजना के विवरणोंने योग्य तो भी लागत आयगी।
यह मौर्यवंशीय योजनाएँ को वन विभाग में एकमुश्त जमा करानी होगी। जिससे मूल्य यूंदि के प्रभाव को समाप्त
किया जा सके। वन विभाग एकमुश्त जमा की गई राशि से वन्यप्राणी संरक्षण योजना विद्यान्वित करेगा।

7. अनुमंदित वन्यप्राणी विकास योजना की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया वन्यप्राणी संरक्षण योजना में
प्रावधानित राशि ₹ 160.00 लाख एकमुश्त जमा कराने हेतु परियोजना प्ररसादको को आदेशित करने का कष्ट
करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Amanash
(रामप्रकाश) ०५/१०/१३

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर दिनांक ०५/१०/२०१३

पृष्ठां क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-12/13/ 2968.

प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, महानदी मंत्रालय भवन, नया रायपुर की ओर मय योजना
की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री एम. के. नार्यक, जी. एम. माइन्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सामरी बॉक्साईट माइन्स,
पोर्ट-कुसमी, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ की ओर मय योजना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

Amanash ०५/१०/१३
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

TATIJHARIA BAUXITE MINE

Annexure B

Annexure-6
Details of Flora and Fauna

Ramambal

Agent of Mines
Samn Mines Division
Hindalco Industries Ltd

ANNEXURE-6
DETAILS OF FLORA & FAUNA

TABLE-1
DETAILS OF DOMINANT PLANT SPECIES IN MINE LEASE AREA (CORE ZONE)

Name of the plant Species	Local Name	Family
Butea monosperma	Palas	Fabaceae
Acacia Arabica	Babul	Mimosaceae
Leuccena leucophloe	Sebubal	Mimosaceae
Mangifera indica	Aam	Anacardiaceae
Citrus lemon	Nimbu	Rutaceae
Emblica officinalis	Amla	Euphorbiaceae
Ficus hispida	Jungli anjir	Moraceae
Spondias cytherea	Kathjamun	Myrtaceae
Terminalia catappa	Badam	Combretaceae
Apluda mutica	Grass	Poaceae
Chloris dolichosta	Grass	Poaceae
Dichanthium annulatum	Grass	Poaceae
Imperata cylindrica	Grass	Poaceae
Themeda quadrivalvis	Grass	Poaceae
Aristida praecepsensis	Grass	Poaceae
Eragrostis biferia	Grass	Poaceae
Eragrostis tenella	Grass	Poaceae
Setaria glauca	Grass	Cyperaceae
Thysanolaena maxima	Grass	Gramineae
Parthenium hysterophorus	Congress grass	Compositae
Croton tora	-	Caesalpiniaceae
Delonix regia	Kachnar	Caesalpiniaceae
Dalbergia Sissoo	Sisoo	Caesalpiniaceae

TABLE-2
FLORA/VEGETATION IN STUDY AREA (BUFFER ZONE)

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
I. Agricultural Crops			
1	<i>Hordium vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
2	<i>Sorghum vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
3	<i>Triticum vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
4	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
5	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
6	<i>Pennisetum typhoideum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
II. Commercial Crops (including Vegetables)			
7	<i>Abelmoschus indicus</i>	Malvaceae	Therophyte
8	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae	Geophyte
9	<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Geophyte
10	<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae	Phanerophyte
11	<i>Arachis hypogea</i>	Fabaceae	Geophyte
12	<i>Catharanthus pusillus</i>	Compositae	Therophyte
13	<i>Cicer arietinum</i>	Fabaceae	Hemicryptophyte
14	<i>Citrus lemon</i>	Rutaceae	Therophyte
15	<i>Coldacasia esculenta</i>	Arecaceae	Geophyte
16	<i>Coreanrum sativum</i>	Umbelliferae	Hemicryptophyte
17	<i>Daucus carota</i>	Umbelliferae	Geophyte
18	<i>Lycopersicum esculentus</i>	Solanaceae	Therophyte
19	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
20	<i>Mercurialis charantia</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
21	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae	Therophyte
22	<i>Psidium guava</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
23	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Geophyte
24	<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
III. Plantations			
25	<i>Bauhinia cormbosa</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
26	<i>Acacia nilotica</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
27	<i>Albizia lebbeck</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
28	<i>Albizia odoratissima</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
29	<i>Albizia procera</i>	Mimosaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
30	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	Phanerophyte
31	<i>Bauhinia variegata</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
32	<i>Bauhinia purpurea</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
33	<i>Bambusa arundanacea</i>	Poaceae	Phanerophyte
34	<i>Butea monosperma</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
35	<i>Butea frondosa</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
36	<i>Eucalyptus sp</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
37	<i>Delonix regia</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
38	<i>Leucaena leucocephala</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
IV. Natural Vegetation / Forest Type			
39	<i>Abrus precatorius</i>	Fabaceae	Therophyte
40	<i>Abutilon indicum</i>	Malvaceae	Phanerophyte
41	<i>Acacia Arabica</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
42	<i>Acacia auriculiformis</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
43	<i>Acacia catechu</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
44	<i>Acacia intinisa</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
45	<i>Acacia fernacea</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
46	<i>Acacia leucophloea</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
47	<i>Acalypha lanceolata</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
48	<i>Acanthospermum hispidum</i>	Compositae	Therophyte
49	<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae	Therophyte
50	<i>Adathoda vasica</i>	Acanthaceae	Therophyte
51	<i>Adlumia cordifolia</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
52	<i>Aegle marmelos</i>	Rutaceae	Phanerophyte
53	<i>Aerva lanata</i>	Compositae	Phanerophyte
54	<i>Ageratum conyzoides</i>	Compositae	Therophyte
55	<i>Allanthes excelsa</i>	Simaroubaceae	Phanerophyte
56	<i>Alangium salviifolium</i>	Alangiaceae	Phanerophyte
57	<i>Albizia odoratissima</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
58	<i>Albizia procera</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
59	<i>Alstonia scholaris</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
60	<i>Alternanthera sessilis</i>	Amaranthaceae	Therophyte
61	<i>Alysicarpus hamosus</i>	Fabaceae	Therophyte
62	<i>Anogeissus latifolia</i>	Combretaceae	Phanerophyte
63	<i>Anogeissus sericea</i>	Combretaceae	Phanerophyte
64	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae	Phanerophyte
65	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	Phanerophyte
66	<i>Barleria prionotes</i>	Acanthaceae	Therophyte
67	<i>Bidens biternata</i>	Compositae	Therophyte
68	<i>Blepharis asperima</i>	Acanthaceae	Phanerophyte
69	<i>Blepharis madagascariensis</i>	Acanthaceae	Therophyte
70	<i>Blumea lacera</i>	Compositae	Therophyte
71	<i>Boerhaavia chinensis</i>	Nyctaginaceae	Therophyte
72	<i>Boerhaavia diffusa</i>	Nyctaginaceae	Therophyte
73	<i>Bombax ceiba</i>	Bombacaceae	Therophyte
74	<i>Borreria hispida</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
75	<i>Borreria stricta</i>	Rubiaceae	Therophyte
76	<i>Boswellia serrata</i>	Burseraceae	Therophyte
77	<i>Brassica campestris</i>	Cruciferae	Phanerophyte
78	<i>Bridelia retusa</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
79	<i>Bridelia superba</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
80	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
81	<i>Calotropis procera</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
82	<i>Canthium diddymum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
83	<i>Capparis aphylla</i>	Capparidaceae	Phanerophyte
84	<i>Capparis decidua</i>	Capparidaceae	Therophyte
85	<i>Carissa carandas</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
86	<i>Carissa spinarum</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
87	<i>Casuarina graveolens</i>	Samydaceae	Phanerophyte
88	<i>Cassia absus</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
89	<i>Cassia absus</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
90	<i>Cassia auriculata</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
91	<i>Cassia occidentalis</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
92	<i>Cassia tora</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
93	<i>Cestrum diurnum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
94	<i>Cestrum nocturnum</i>	Rubiaceae	Theophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
95	<i>Chloris varigata</i>	Poaceae	Therophyte
96	<i>Cissus quadrangularis</i>	Vitaceae	Therophyte
97	<i>Citrus limon</i>	Rutaceae	Phanerophyte
98	<i>Cleome gynandra</i>	Capparidaceae	Therophyte
99	<i>Combretum ovalifolium</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
100	<i>Cordia myxa</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
101	<i>Crotalaria medicaginea</i>	Fabaceae	Therophyte
102	<i>Croton bonplandinum</i>	Amaryllidaceae	Therophyte
103	<i>Cuscuta reflexa</i>	Cuscutaceae	Epiphyte
104	<i>Datura fastulosa</i>	Solanaceae	Therophyte
105	<i>Datura metal</i>	Solanaceae	Therophyte
106	<i>Desmodium triflorum</i>	Asclepiadaceae	Therophyte
107	<i>Diospyros melanoxylon</i>	Lythraceae	Phanerophyte
108	<i>Diospyros Montana</i>	Lythraceae	Phanerophyte
109	<i>Echinops echinatus</i>	Compositae	Therophyte
110	<i>Eclipta prostrata</i>	Compositae	Hemicryptophyte
111	<i>Emblica officinalis</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
112	<i>Emilia lajerium</i>	Compositae	Hemicryptophyte
113	<i>Erythrina indica</i>	Papilionaceae	Phanerophyte
114	<i>Euphorbia geniculata</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
115	<i>Euphorbia hirta</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
116	<i>Euphorbia hyperacfolia</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
117	<i>Euphorbia heteruru</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
118	<i>Euphorbia nivula</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
119	<i>Euphorbia piluliflora</i>	Euphorbiaceae	Hemicryptophyte
120	<i>Euphorbia tricauli</i>	Euphorbiaceae	Hemicryptophyte
121	<i>Evolvulus alsinoides</i>	Convolvulaceae	Therophyte
122	<i>Evolvulus numularis</i>	Convolvulaceae	Therophyte
123	<i>Feronia elephantum</i>	Rutaceae	Phanerophyte
124	<i>Ficus benghalensis</i>	Moraceae	Phanerophyte
125	<i>Ficus carica</i>	Moraceae	Phanerophyte
126	<i>Ficus glomerata</i>	Moraceae	Phanerophyte
127	<i>Ficus hispida</i>	Moraceae	Phanerophyte
128	<i>Ficus racemosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
129	<i>Ficus religiosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
130	<i>Ficus gibbosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
131	<i>Gardenia latifolia</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
132	<i>Gardenia lucida</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
133	<i>Garuga pinnata</i>	Burseraceae	Phanerophyte
134	<i>Glossocardia boswellia</i>	Compositae	Hemicryptophyte
135	<i>Gmelina arborea</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
136	<i>Gomphrena globosa</i>	Amaranthaceae	Therophyte
137	<i>Gossypium herbaceum</i>	Malvaceae	Therophyte
138	<i>Grewia abutilifolia</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
139	<i>Grewia salivifolia</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
140	<i>Grewia subinaqualis</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
141	<i>Gynandropsis gynandra</i>	Capparidaceae	Hemicryptophyte
142	<i>Helicteris isora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
143	<i>Heliotropium indicum</i>	Rubiaceae	Hemicryptophyte
144	<i>Heliotropium ovalifolium</i>	Rubiaceae	Hemicryptophyte
145	<i>Hemidesmus indicus</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
146	<i>Hibiscus caesius</i>	Malvaceae	Hemicryptophyte
147	<i>Holarrhena antidysenterica</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
148	<i>Holostemma annularia</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
149	<i>Hygrophilla auriculata</i>	Acanthaceae	Hemicryptophyte
150	<i>Hyptis suavalens</i>	Labiatae	Therophyte
151	<i>Ichnocarpus frutescens</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
152	<i>Impatiens balasamana</i>	Balsaminaceae	Therophyte
153	<i>Indigofera hirsute</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
154	<i>Indigofera limnacea</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
155	<i>Indigofera tinctoria</i>	Caesalpiniaceae	Therophyte
156	<i>Ipomea aquatica</i>	Convolvulaceae	Hydrophyte
157	<i>Ipomea coccinea</i>	Convolvulaceae	Therophyte
158	<i>Ipomea tuba</i>	Convolvulaceae	Hemicryptophyte
159	<i>Ixora arborea</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
160	<i>Ixora parviflora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
161	<i>Ixora singapuriens</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
162	<i>Jasmimimum arborens</i>	Oleaceae	Phanerophyte
163	<i>Jatropha gossypifolia</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
164	<i>Jussiaea suffraticeosa</i>	Omagraceae	Hydrophyte
165	<i>Justia diffusa</i>	Acanthaceae	Therophyte
166	<i>Justicia diffusa</i>	Acanthaceae	Therophyte
167	<i>Lactuca punctata</i>	Compositae	Therophyte
168	<i>Lannea coramandalica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
169	<i>Lannea grandis</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
170	<i>Lannea procumbens</i>	Anacardiaceae	Therophyte
171	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae	Phanerophyte
172	<i>Lawsonia inermis</i>	Lythraceae	Phanerophyte
173	<i>Lepidogathis cristata</i>	Acanthaceae	Therophyte
174	<i>Leptodenia reticulata</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
175	<i>Leucas aspera</i>	Labiatae	Therophyte
176	<i>Leucas longifolia</i>	Labiatae	Therophyte
177	<i>Leucas longifolia</i>	Labiatae	Therophyte
178	<i>Leucena leucocephala</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
179	<i>Linderbergia indica</i>	Scrophulariaceae	Therophyte
180	<i>Linderbergia ciliata</i>	Scrophulariaceae	Therophyte
181	<i>Lophophora tridinatus</i>	Scrophulariaceae	Geophyte
182	<i>Luffa acutangulata</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
183	<i>Lycopersicum esculentus</i>	Solanaceae	Therophyte
184	<i>Madhuca latifolia</i>	Sapotaceae	Phanerophyte
185	<i>Mallotus philippinus</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
186	<i>Malvastrum coramandalicum</i>	Malvaceae	Therophyte
187	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
188	<i>Marselia quadrifolia</i>	Marseliaceae	Phanerophyte
189	<i>Melia azadirachta</i>	Meliaceae	Phanerophyte
190	<i>Memordica dioica</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
191	<i>Merremia emerginata</i>	Convolvulaceae	Therophyte
192	<i>Michaelia champaca</i>	Annonaceae	Phanerophyte
193	<i>Millingtonia hortensis</i>	Bignoniaceae	Phanerophyte
194	<i>Mimosa hamata</i>	Mimosaceae	Therophyte
195	<i>Mitracyena parviflora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
196	<i>Mollugo cerviana</i>	Aizoaceae	Therophyte
197	<i>Mollugo hirta</i>	Aizoaceae	Therophyte
198	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	Phanerophyte
199	<i>Morus alba</i>	Moraceae	Phanerophyte
200	<i>Mucuna pruriens</i>	Papilionaceae	Hemicryptophyte
201	<i>Murraya exotica</i>	Rutaceae	Phanerophyte
202	<i>Murraya koenigii</i>	Rutaceae	Phanerophyte
203	<i>Musa paradisica</i>	Musaceae	Therophyte
204	<i>Nymphaea sp</i>	Magnoliaceae	Hydrophyte
205	<i>Ocimum americanum</i>	Labiatae	Therophyte
206	<i>Ocimum basilicum</i>	Labiatae	Therophyte
207	<i>Ocimum canum</i>	Labiatae	Therophyte
208	<i>Ocimum sanctum</i>	Labiatae	Therophyte
209	<i>Oldenlandia umbellata</i>	Convolvulaceae	Therophyte
210	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	Rubiaceae	Therophyte
211	<i>Oogeinia oocjensis</i>	Papilionaceae	Phanerophyte
212	<i>Opuntia dillenii</i>	Opuntiaceae	Therophyte
213	<i>Opuntia elatior</i>	Cactaceae	Therophyte
214	<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalidaceae	Therophyte
215	<i>Panicum milliria</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
216	<i>Panicum notatum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
217	<i>Papaver somniferum</i>	Papaveraceae	Hemicryptophyte
218	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
219	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Compositae	Therophyte
220	<i>Paspalum strobilanthus</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
221	<i>Passiflora foetida</i>	Passifloraceae	Phanerophyte
222	<i>Pavonia zeylanica</i>	Malvaceae	Phanerophyte
223	<i>Peltaphorum ferruginosum</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
224	<i>Phoenix aculeata</i>	Palmae	Phanerophyte
225	<i>Phyllanthus asperulatus</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
226	<i>Phyllanthus emblica</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
227	<i>Phyllanthes niruri</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
228	<i>Phyllanthes reticulatus</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
229	<i>Physalis minima</i>	Solanaceae	Therophyte
230	<i>Pithecellobium dulce</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
231	<i>Polyalthia longifolia</i>	Annonaceae	Phanerophyte
232	<i>Polygala ererptera</i>	Polygalaceae	Therophyte
233	<i>Pongamia pinnata</i>	Fabaceae	Phanerophyte
234	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	Therophyte
235	<i>Psidium guava</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
236	<i>Punica granatum</i>	Prunaceae	Therophyte
237	<i>Randia dumatorum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
238	<i>Rosa indica</i>	Rosaceae	Therophyte
239	<i>Rosa machata</i>	Rosaceae	Therophyte
240	<i>Saccharum munja</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
241	<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae	Therophyte
242	<i>Salmania malabarica</i>	Salmaliaceae	Phanerophyte
243	<i>Sapindus emarginatus</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
244	<i>Schleichera trifluga</i>	Combretaceae	Phanerophyte
245	<i>Scherebera swietenoides</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
246	<i>Schleichera oleosa</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
247	<i>Sesamum indicum</i>	Pedaliaceae	Hemicryptophyte
248	<i>Shorea robusta</i>	Dipterocarpaceae	Phanerophyte
249	<i>Sida orientalis</i>	Malvaceae	Phanerophyte
250	<i>Sida acuta</i>	Malvaceae	Hemicryptophyte
251	<i>Solanum nigrum</i>	Solanaceae	Therophyte
252	<i>Solanum xanthocarpum</i>	Solanaceae	Therophyte
253	<i>Sterculia villosa</i>	Tiliaceae	Therophyte
254	<i>Stereospermum chelinoides</i>	Bignoniaceae	Phanerophyte
255	<i>Syzygium cumini</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
256	<i>Tamarindus indica</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
257	<i>Tecomella undulata</i>	Bignoniaceae	Therophyte
258	<i>Tectona grandis</i>	Verbenaceae	Phanerophyte
259	<i>Tephrosia purpurea</i>	Fabaceae	Therophyte
260	<i>Terminalia bellarica</i>	Combretaceae	Phanerophyte
261	<i>Terminalia chebula</i>	Combretaceae	Phanerophyte
262	<i>Terminalia tomentosa</i>	Combretaceae	Phanerophyte
263	<i>Tinospora cordifolia</i>	Rhamnaceae	Therophyte
264	<i>Tragus biflorus</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
265	<i>Tribulus terrestris</i>	Zygophyllaceae	Therophyte
266	<i>Tridax procumbens</i>	Compositae	Therophyte
267	<i>Triumfetta pilosa</i>	Tiliaceae	
268	<i>Vernonia cinerea</i>	Compositae	Therophyte
269	<i>Vicoa indica</i>	Compositae	Phanerophyte
270	<i>Vitex Negundo</i>	Verbenaceae	Phanerophyte
271	<i>Vitex negundo</i>	Verbenaceae	Therophyte
272	<i>Vitis vermicifera</i>	Vitaceae	Therophyte
273	<i>Vivevera zizanoides</i>	Poaceae	Therophyte
274	<i>Wrightia tomentosa</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
275	<i>Xanthium strumarium</i>	Compositae	Therophyte
276	<i>Yucca gloriosa</i>	Agavaceae	Therophyte
277	<i>Ziziphus jujube</i>	Rhamnaceae	Phanerophyte
278	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Rhamnaceae	Phanerophyte
V. Grasslands			
279	<i>Apluda mutica</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
280	<i>Chloris dolichostea</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
281	<i>Cyanodactylon sp</i>	Poaceae	Geophyte
282	<i>Dichanthium annulatum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
283	<i>Imperata cylindrica</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
284	<i>Sachharum spontaneum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
285	<i>Themeda quadrivalvis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
286	<i>Aristida adscensionis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
287	<i>Cenchrus ciliaris</i>	Poaceae	Therophyte
288	<i>Cenchrus setigerus</i>	Poaceae	Therophyte
289	<i>Cymbopogon iwarancusa</i>	Cyperaceae	Hemicryptophyte
290	<i>Cyperus aristatus</i>	Cyperaceae	Therophyte
291	<i>Cyperus triceps</i>	Cyperaceae	Therophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
292	<i>Dactylectinum annualatum</i>	Poaceae	Therophyte
293	<i>Digetaria bicornis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
294	<i>Digetaria Segetaria</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
295	<i>Eragrostis bifaria</i>	Poaceae	Therophyte
296	<i>Eragrostis tenella</i>	Poaceae	Therophyte
297	<i>Ischaemum ruulosum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
298	<i>Setaria glauca</i>	Cyperaceae	Hemicryptophyte
299	<i>Eulaliopsis blinata</i>	Gramineae	Hemicryptophyte
300	<i>Thysanolaena maxima</i>	Gramineae	Hemicryptophyte
	Endangered plants	No endangered plant species observed during study period and also from records of Botanical Survey of India (Red data of Books of Indian Plants)	



**TABLE-3
FAUNA AND THEIR CONSERVATION STATUS FROM MINE LEASE AREA (CORE ZONE)**

Technical Name	English Name/ Local Name	Wild Life Protection Act (1972) Status
Aves		
<i>Phalacrocorax niger</i>	Little cormorant	Sch-IV
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Night heron	Sch-IV
<i>Ardeola grayii grayii</i>	Paddy bird	Sch-IV
<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	Cattle egret	Sch-IV
<i>Eudynamys scolopacea</i>	Indian koel	Sch-IV
<i>Meops philippinus philippinus</i>	Bluetailed bee-eater	Sch-IV
<i>Dinopium benghalense tehmnae</i>	Malabar golden backed Woodpecker	Sch-IV
<i>Acridotheres tristis tristis</i>	Common myna	Sch-IV
<i>Nectarinia minima</i>	Small sunbird	Sch-IV
<i>Passer domesticus indicus</i>	Indian house sparrow	Sch-IV
Butterflies		
<i>Hypolimnas bolina Lin.</i>	Green butterfly	-
<i>Euploea core Cramer</i>	Common crow	-
<i>Neptis hylas Moore</i>	Common sailor	-
<i>Eurema hecate Lin.</i>	Common grass yellow	-
<i>Parantica aglea Stoll.</i>	Glossy tiger	-
Mammals		
<i>Funambulus palmarum</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Sus scrofa</i>	Wild pig	Sch-III
<i>Herpestes edwardii</i>	Common mongoose	Sch-IV
<i>Vulpes benghalensis</i>	Wild fox	Sch-II
<i>Hystrix indica</i>	Porcupine	Sch-IV

**TABLE-4
FAUNA AND THEIR CONSERVATION STATUS IN STUDY AREA (BUFFER ZONE)**

Technical Name	English Name/Local Name	Wild Life Protection Act (1972)
Aves		
<i>Phalacrocorax niger</i>	Little cormorant	Sch-IV
<i>Ardea purpurea manilensis</i>	Eastern purple heron	Sch-IV
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Night heron	Sch-IV
<i>Ardeola grayii grayii</i>	Paddy bird	Sch-IV
<i>Dupetor flavicollis</i>	Black bittern	Sch-IV
<i>Ardea alba modesta</i>	Large egret	Sch-IV
<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	Cattle egret	Sch-IV
<i>Milvus migrans govinda</i>	Common pariah kite	Sch-IV
<i>Haliastur indus indus</i>	Brahminy kite	Sch-IV
<i>Vanellus indicus indicus</i>	Redwattled lapwing	Sch-IV
<i>Tringa hypoleucos</i>	Common sandpiper	Sch-IV
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Gullbilled tern	Sch-IV
<i>Eudynamys scolopacea</i>	Indian koel	Sch-IV
<i>Halcyon smyrnensis fusca</i>	Indian white breasted Kingfischer	Sch-IV
<i>Meops philippinus philippinus</i>	Bluetailed bee-eater	Sch-IV

Technical Name	English Name/Local Name	Wild Life Protection Act (1972)
<i>Coracias benghalensis indica</i>	Southern Indian Roller	Sch-IV
<i>Dinopium benghalense tehmiae</i>	Malabar golden backed Woodpecker	Sch-IV
<i>Acridotheres tristis tristis</i>	Common myna	Sch-IV
<i>Corvus splendens protegatus</i>	Ceylon house crow	Sch-IV
<i>Nectarinia minima</i>	Small sunbird	Sch-IV
<i>Nectarenia zeylonica sola</i>	Indian purple rumped sunbird	Sch-IV
<i>Arachnothera longirostris longirostris</i>	Little spinder hunter	Sch-IV
<i>Passer domesticus indicus</i>	Indian house sparrow	Sch-IV
<i>Copsychus saularis ceyanensis</i>	Southern magpie-robin	Sch-IV
<i>Orthotomus sutorius</i>	Tailor bird ouzurata	Sch-IV
<i>Pavocristatus</i>	Peacock	Part-III of Sch-I
Amphibians		
<i>Rana tigrina</i>	Common frog	Sch-IV
<i>Bufo melanostictus</i>	Toad	Sch-IV
Reptiles		
<i>Calotes versicolor</i>	Lizard	Sch-IV
<i>Calotes versicolor</i>	Common garden lizard	Sch-IV
<i>Chamaeleon zeylanicus</i>	Indian chameleon	Sch-II
<i>Lycodon spp.</i>	Wolf snake	Sch-III
<i>Boiga spp.</i>	Cat snake	Sch-III
<i>Bungarus spp.</i>	Krait	Sch-II
<i>Naja naja</i>	Indian cobra	Sch-III
<i>Vipera spp.</i>	Russel's viper	Sch-III
<i>Python sp.</i>	Python sp.	Sch-I
Butterflies		
<i>Pachliopta hector Lin.</i>	Crimson rose	-
<i>Papilio demoleus Lin.</i>	Lime butterfly	-
<i>Graphium agamemnon Lin.</i>	Tailed jay	-
<i>Junonia almana Lin.</i>	Peacock pansy	-
<i>Hypolimnas bolina Lin.</i>	Great eggfly	-
<i>Euploea core Cramer</i>	Common crow	-
<i>Neptis hyllus Moore</i>	Common sailor	-
<i>Eurema hecabe Lin.</i>	Common grass yellow	-
<i>Catopsilia sp.</i>	Emigrant	-
Mammals		
<i>Rattus sp.</i>	Rat	Sch-IV
<i>Lepus nigricollis</i>	Hare	Sch-IV
<i>Canis auris</i>	Jackal	Sch-III
<i>Presbytis entellus</i>	Langur	Sch-II
<i>Presbytis phayrei</i>	Monkey	Sch-I
<i>Funambulus spp.</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Funambulus palmarum</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Sus scrofa</i>	Wild pig	Sch-III
<i>Rattus norvegicus</i>	Field mouse	Sch-V
<i>Rattus rattus</i>	House rat	Sch-V
<i>Rhinolophus spp.</i>	Bat	Sch-V
<i>Hipposideros spp.</i>	Bat	Sch-V
<i>Herpestes edwardii</i>	Common mongoose	Sch-IV
<i>Bandicota indica</i>	Bandicoot	Sch-V
<i>Bandicota bengalensis</i>	Bandicoot	Sch-V
<i>Vulpes benghalensis</i>	Wild fox	Sch-III
<i>Melursus ursinus</i>	Bear	Sch-III
<i>Hystrix indica</i>	Porcupine	Sch-IV
<i>Axis axis</i>	Spotted deer	Sch-III
<i>Canis lupaspallipes</i>	Indian wolf	Part-I of Sch-I
<i>Mellivora capensis</i>	Indian Ratel	Part-I of Sch-I
<i>Elephas maximus</i>	Indian Elephant	Part-I of Sch-I
<i>Felis chaus</i>	Jungle cat	Part-II of sch-II
<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Indian Small civet	Part-I of sch-I
<i>Muntiacus muntiacus</i>	Barking deer	Sch-III
<i>Macaca mulata</i>	Monkey	Part-I of Sch-I



View of one small old inactive OB dump stabilized by vegetation with suitable native species at Tatijharia Lease

Rampramath
Agent of Mines
Samri Mines Division
Hindalco Industries Ltd

Year	Kudag Bauxite Mines		Samri Bauxite Mines		Tatijharia Bauxite Mines		Total	
	No.of Sapling	Area in hect.	No.of Sapling	Area in hect.	No.of Sapling	Area in hect.	No.of Sapling	Area in hect.
1998-99	900	0.1	0	0	0	0	900	0.1
1999-00	7000	2.58	0	0	0	0	7000	2.58
2000-01	7500	3.21	0	0	0	0	7500	3.21
2001-02	10000	5.01	0	0	0	0	10000	5.01
2002-03	4000	1.56	3800	2.44	0	0	7800	4
2003-04	4200	2.57	5500	2.81	0	0	9700	5.38
2004-05	6750	2.9	8222	2.8	2000	1	16972	6.7
2005-06	800	0.5	11100	3.8	8700	3.4	20600	7.7
2006-07	4940	2	16510	6.884	8190	3.3	29540	12.184
2007-08	2950	1.3	18880	7.75	6390	2.5	28220	11.55
2008-09	32200	12.72	5000	2.47	3000	1.5	40200	16.69
2009-10	15700	6.20	15100	6.00	7850	3.20	38650	15.40
2010-11	1500	0.600	18325	7.200	8750	3.400	28575	11.200
2011-12	3015	1.200	11575	4.600	3370	1.360	17960	7.160
2012-13	1200	0.500	12400	5.000	4600	1.900	18200	7.400
2013-14	950	0.400	8700	3.500	4875	2.000	14525	5.900
2014-15	5575	2.230	12850	5.150	7750	3.100	26175	10.480
2015-16	4000	1.600	10139	4.050	7500	3.000	21639	8.650
2016-17	4390	2.800	9110	3.700	5950	2.400	19450	8.900
2017-18	2960	1.220	11681	4.970	8868	3.540	23509	9.730
2018-19	2780	1.110	19730	7.900	19967	7.990	42477	17.000
2019-20	2980	1.200	34360	31.590	32715	18.970	70055	51.760
2020-21 (Upto Sep. 20)	4865	2.405	36160	16.918	23739	10.819	64764	30.142
Total	131155	55.915	269142	129.532	164214	73.379	564511	258.826

Ramachandra
Agent of Mines
Samri Mines Division
Hindalco Industries Ltd

A View of Pears plantation



Rajendra Singh

Agent of Mines
Samr Mines Division
Hindalco Industries Ltd


A View of recharge well and Rain water harvesting pond



Rampramodh

Agent of Mines
Samr Mines Division
Hindalco Industries Ltd

Annexure-F



View of Black top road constructed up to pit head to reduce dust problem.

Ramambeth

Agent of Mines
Samn Mines Division
Hindalco Industries Ltd

Hindalco Industries Ltd.

Mines Division, Samri

01.04.2020

Environment Management Cell

An Environment Management Cell is re-constituted by the following members which is compliance of the EC conditions for the Samri, Kudag and Tatijharia Bauxite Mines.

<u>S.No.</u>	<u>Name</u>	<u>Designation</u>	<u>Position</u>
1.	Mr. R R P Ambastha	Agent of Mines	Chairman
2.	Mr. Amit Tiwary	Manager-Mines	Secretary
3.	Mr. Tapas Gachhayat	Manager – Geology	Member
4.	Mr. Y K Lilhare	Manager- Mines	Member
5.	Dr. M Kumar	Sr. Medical Officer	Member
6.	Mr. K K Singh	Dy. Manager- Mines	Member
7.	Mr. Manoj Dixit	Assistant Manager- Geology	Member
8.	Mr. C S Prasad	Dy. Officer – Lab.	Member

(R R P Ambastha)

Agent of Mines

Agent of Mines

Samri Mines Division
Hindalco Industries Ltd

ग्राम पत्र //

वर्ष २०२३ में जिला को पिछले बर्षों से बदला है। इसकी
पर्यावरण पर भए विषय में सबसे ज्ञान रखने वाली ग्राम पत्रि का लिखा

(मत्त्वाच/पर्यावरण का हमारा काम)

नाम -

दृढ़ नाम

१० अंक दिये जा सकते

प्रथम पार अधिकारी १० अंक की प्रतीक्षा होती है।

अधिकारी ने बहुत काम किया जिस नामीय उप नामिति टेक्ट सेक्रेटरी प्रभावा

कर जाने की विश्वास योग्य पार्टी गढ़े उपनीवाहाएं का दैव टेक्ट लिया

अंक उंचकी की योग्यता होती रही भी कूल दोषसं अंक ३० से अधिक

हो जाता चाहिए।

मी भी इकार का अवकाश मर्यादित नहीं किया जावेगा।

किंतु यह हांकर अधिकारी अवधि की घट्य सेवा है जिसका बदल ज्ञान
में विश्वास अद्वितीय पार ०३ (तीन) वर्ष के लिए सबसे बार
प्रदान किया गया। यामांकन होने की जोड़ी रखाई नहीं है।

मे अपनीदाव की घट्य हांकु भर्ती अन्न तक आये, जारे हांहु किसी

दिनांक ०३/१०/२००० के प्राप्त ८ घण्टे भर्ती स्थल भीजी, कोरेज

जिला सरकारी
प्रशासन अधिकारी

हांहु आवेदन पत्र

उपनीवित
अधिकारी हांग
अभियानित
पार्टी द्वारा
का फैटा।

संभा.
संभा.

५२

प्रमाण पत्र //

ग्राम पत्र।

/ 20235

आवादक के इस्तेव



आम्बकापुर

लायन्स क्लब सेंट्रल के बैठक सभामें कल्याण आम्बकापुर सेंट्रल के सभा ०७-०८ में विभिन्न सेवा कार्य प्रतिविधियों पर विचार किया गया है। एक सहित लायन्स क्लब सेवा कार्यकारी बैठक आगंत नगर एमजी रोड में संपन्न हुई। लायन्स क्लब सेवा कार्यकारी बैठक आयकर अधिकारी के मुख्य अतिव्याप्ति में लायन्स क्लब के सभी सदस्यों द्वारा स्थानीय बृद्धाश्रम में निःशक्त बृद्धाजनों को फलवितरण का गुरु किया गया।

लायन्स क्लब सेंट्रल के बैठक सभामें कल्याण आम्बकापुर सेवा कार्य प्रतिविधियों पर विचार किया गया है। एक सहित लायन्स क्लब सेवा कार्यकारी बैठक आगंत नगर एमजी रोड में संपन्न हुई। लायन्स क्लब सेवा कार्यकारी बैठक आयकर अधिकारी के मुख्य अतिव्याप्ति में लायन्स क्लब के सभी सदस्यों द्वारा स्थानीय बृद्धाश्रम में निःशक्त बृद्धाजनों को फलवितरण का गुरु किया गया।

रा

कोरब
स्वाध
१५.३
पर स
सम्बा

लि

लि

HINDALCO
ENVIRONMENTAL GROUP

हिंडाल्को इपडस्ट्रीज लिमिटेड

(सामर्थ खान प्रभाग)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली में उनके पत्र क्रमांक जे. 11015/337/2007-II(A.II)(M) दिनांक 09.08.2007 के तहत हिंडाल्को इपडस्ट्रीज लिमिटेड के टाटीइरिया बॉक्साईट खदान को श्रमिता विस्तार (0.40 मिलियन टन बॉक्साईट उत्पादन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति अनुमोदित होकर प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त स्थीकृति पत्र की प्रतिलिपि छंगा पर्यावरण मंडल को प्राप्तिलिप्त में उपलब्ध है। एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैबसाईट <http://envfor.nic.in>, पर भी देखो। आ सकता है।

भवतीय

हिंडाल्को इपडस्ट्रीज लिमिटेड
सामर्थ खान प्रभाग

अधि. जामिनकारानी १२ अगस्त २००७

Rajendra Pathak

Agent of Mines
Samruddhi Mines Division
Hindalco Industries Ltd

हेतु विदेशीत किया है।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

राजपुर। केन्द्रशासित दूरस्थी ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मौसमी बीमारियों का दखते हुए पंचायत कर्ता, उधवा, कठरा, मदनेवा, भटाचार्य में शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टरों को निःशुल्क दवाइयों बांटी। खण्ड विकितसा अधिकारी डॉ.प्रीत राम ने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ बीमारी के खारे में पता लगाया है। गाव के लोग छोटी छोटी बीमारी में विकितसालप नहीं जाते। जिससे वह बड़े जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक बीमारी को शरू में ही समाप्त किया जाए। शिविर में डॉक्टर के अलावा फिल्म और स्वास्थ्य कार्यकर्ता साहित मिलानित शामिल रहते हैं।

सूरजपुर में संसदीय सचिव केरंगे ध्वजारोहण

सूरजपुर। स्वतंत्रता दिवस की 60 वीं वर्षगांठ पर सूरजपुर के जिला स्वतंत्र आयोजन में संसदीय सचिव एवं विधायक रामसवाल पैकरा ध्वजा रोहण करेंगे।

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (सामरी खान प्रभाग)

द्रव्यगति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली से उनके पत्र क्रमांक जे.11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 09.08.2007 के तहत हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के टाटीइनिया बॉक्साईट खादन की क्षमता विस्तार (0.40 मिलियन टन बॉक्साईट उत्पादन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित होकर प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि छंग, पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय में उपलब्ध है एवं बन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाईट <http://envfor.nic.in> पर देखी जा सकती है।

भवदीय

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सामरी खान प्रभाग

दिनांक 13 अगस्त 2007



राजनीय रेलवे आरक्षण कानून में राज-रोज रिंक फाल होने एवं स्टाफ की नज़दीकी बन गई है।

अधूरी पड़ी पुलिया निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

राजपुर। सेमरा बक्सपुर मार्ग पर अधूरी पड़ी पुलिया के पुनः निर्माण एवं अनियमितता की जाच की मांग वाढ़ क्रमांक-8 के पार्श्व अभय जायसवाल ने कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया है कि सार पंचायत के बाढ़ क्रमांक-3 से होकर सेमरा बक्सपुर जाने के लिए तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन सांसद खेलसाय सिंह ने तीन लाख रुपए अपने मद से दिया था। निर्माण एजेंसी नगर पंचायत को बनाया गया था। पुलिया बनने से पूर्व नगर पंचायत चुनाव हुए एवं पुलिया को कार्य बंद हो गया। नगर पंचायत गठन के बाद पार्षदों ने पुनः कार्य करवाने एवं पूर्ण करने का निश्चय लिया था। लेकिन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ तथा इसकी फाईस भी कार्यालय से गायब हो गई। पार्श्व अभय जायसवाल ने इसकी शिकायत कलेक्टर सरगुजा भर कर इसकी जांच कराए जाने एवं तत्काल पुल-पुलिया निर्माण प्रारंभ कराए जाने की मांग की है ताकि बरसात में आने-जाने की समस्या समाप्त हो सके।

प्रवेशा प्रारंभ

ISO 9001:2000 प्रमाणित
आधिकारिक भारतीय स्तर पर
स्थापित संस्कृत कॉम्पिल
वर्ड दिल्ली से भारतवर्षा प्राप्त

श्री सांई डीडिफिल फॉलेज (ए.एन.)

एडवे ग्राउंड क घास, सटी गोड़
आमदारा (हर.)

पाठ्यक्रम

B.A.M.S. 3Year
D.A.M.S. 1Year

जॉब की सम्भावनाएँ

योग्यता- 10वीं- 12वीं पास
टीकीया प्रधोरा
श्रीमति.
रिंग रोड, चौणापासा,
उमीदकापुर
फोन: 07274- 323330

Rajeshwari

Agent of Mines
Samin Mines Division
Hindalco Industries Ltd